

भारतीय मानक ब्यूरो
(प्रयोगशाला मान्यता और प्रबंधन विभाग)

संदर्भ: एल आर एम डी / एलआरएस/ ओएसएल- 9177406

05-04-2024

विषय: मै आर.टी.आर.सी. लिमिटेड, गुरुग्राम, हरयाणा (ओएसएल- 9177406) की मान्यता को अनुदान।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन अनुसार मै आर.टी.आर.सी. लिमिटेड, गुरुग्राम, हरयाणा (ओएसएल- 9177406) को भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशाला मान्यता योजना के अंतर्गत दिनांक 04.04.2024 से 3 साल की अवधि के लिए मान्यता अनुदान दिया गया है।

प्रयोगशाला मान्यता प्राप्त क्षेत्र अनुबंध - 1 में दिया गया है।

सुपाई टूडू
वैज्ञानिक- सी (एल आर एम डी)

प्रमुख (एल आर एम डी)

प्रतिलिपि - सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालय / प्रयोगशालाएं / सी एम डी -1 / सी एम डी -2 / सी एम डी -3 के लिए
प्रमुख आई टी एस : कृपया संलग्न किए गए प्रपत्र को भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर अपलोड करें।

Bureau of Indian Standards
(Laboratory Recognition and Management Department)

Our Ref: LRMD/LRS/OSL-(9177406)

05-04-2024

Subject: Grant of Recognition to M/s RTRC Limited, Gurugram, Haryana (OSL Code- 9177406).

As approved by the Competent Authority M/s RTRC Limited, Gurugram, Haryana (OSL Code- 9177406) has been granted recognition for three year w.e.f. 04.04.2024 under the Laboratory Recognition Scheme of BIS.

The scope of Recognition of the lab is enclosed as **Annex-1**

Supai Tudu
Scientist-C (LRMD)

Head In-Charge (LRMD)

CC: All ROs/BOs/BIS Labs/CMD-I/CMD-II/CMD-III

Head ITS, BIS HQ-With a request to upload this circular on BIS internet

OSL CODE 9177406

NAME RTRC LIMITED

ADDRESS Plot No. 296, Sector-7, Phase-II, Industrial
Estate, IMT Manesar
Gurugram 122050
Haryana

CONTACT : Manish Arora, Managing Director

TELEPHONE: 9818201479

FAX:

E-mail qa@rtrc.in

REMARKS

IS Number	Product	Testing Charge	Remark
1	IS 191 : 2007 Copper	Rs. 9000/-	
2	IS 335 : 2018 NEW INSULATING OILS FOR TRANSFORMERS & SWITCHGEARS	Rs. 42700/-	Exclusion: Cl. 6.14 (Electrostatic Charging Tendency (ECT)), Cl. 7.2 (Electrostatic Charging Tendency (ECT)), Cl. 4, 5.2, 6, Table 2 (ECT)
3	IS 1180(Part 1): 2014 OUTDOOR TYPE OIL IMMERSSED DISTRIBUTION TRANSFORMERS UPTO AND INCLUDING 2500 KVA, 33 KVA SPECIFICATION PART 1 MINERAL OIL IMMERSSED	Rs. 120000/-	Exclusion: Cl.21.4 b (Short-circuit withstand test IS 2026 (Part 5) (above 200 kVA)), Cl. 17 (ABILITY OF TRANSFORMERS TO WITHSTAND EXTERNAL SHORT CIRCUIT), Cl. 21.3(c) (Short-circuit withstand test)
4	IS 7098(Part 2): 2011 XLPE Cable for voltages from 3.3 kV up to and including 33 kV.	Rs. 190000/-	
5	IS 7098(Part 3): 1993 XLPE Cables for voltages from 66 kV up to and including 220 kV	Rs. 450000/-	Exclusion: Testing Facility for Cl.20.17 (High Voltage Test (as Routine and Acceptance Tests)), Cl. 20.18 (Measurement of Capacitance), Cl. 20.15 (Impulse Voltage Test Followed by High Voltage Test), Cl. 20.14.1 (Load cycle test followed by P.D measurement), Cl. 20.13 (Dielectric power factor measurement at elevated temperature), Cl. 20.12, 20.18 (Dielectric power factor and capacitance measurement at ambient temperature), Cl. 20.11.1 (Bending test followed by P D test) are available upto 66KV only.
6	IS 9968(Part 2): 2002 Specification for elastomer - Insulated cables: Part 2 for working voltages from 3.3 kV up to and including 33 kV (First Revision)	Rs. 210000/-	
7	IS 14494 : 2019 ELASTOMER INSULATED FLEXIBLE CABLE FOR USE IN MINES	Rs. 240000/-	
8	IS 17048 : 2018 Halogen free flame retardant cables for working voltages upto and including 1100 Volts	Rs. 89000/-	

IS Number	Product	Testing Charge	Remark
9	IS 17293 : 2020	Electical cables for photovoltage systems for rated voltage 1500 V.D.C	Rs. 1213700/-
10	IS 17505(Part 1): 2021	Specification for Thermosetting Insulated Fire Survival Cables for Fixed Installation having Low Emission of Smoke and Corrosive Gases when Affected by Fire for Working Voltages upto and including 1100 Vac and 1500 Vdc	Rs. 174000/-